

गुरसराय लूटकाण्ड की घटना से सम्बंधित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त 02 किलोग्राम चाँदी के आभूषणों सहित गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी डा0 श्री ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल मिठास एवं क्षेत्राधिकारी गरौठा श्री शैलेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04-08-2019 को थाना गुरसराय पुलिस द्वारा थाना अंतर्गत व्यवसायी के घर घटित लूट की घटना में संलिप्त/प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक अहिरवार को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त लूट की घटना से सम्बंधित 02 कि.ग्रा चाँदी पुरानी इस्तेमाली बरामद हुयी है।

घटना का विवरण-

आज दिनांक 04.08.2019 को अभियुक्त- दीपक अहिरवार पुत्र गोपाल अहिवार निवासी वूढा थाना सीपरी वाजार जिला झाँसी गिफ्तार कब्जे से थाना स्थानीय के मु0 अ0 स0 125/19 धारा 394/452/411/120 IPC से सम्बन्धित लूटी गयी 02 कि.ग्रा चाँदी पुरानी इस्तेमाली बरामद की गयी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना गुरसराय चर्चित व्यवसायी लूट के मु०अ०स० 125/19 धारा 394,452 भादवि बनाम अज्ञात के अभियोग अनावरण से पूँछताँछ अभियुक्त उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

उल्लेखनीय कि दिनांक 08.07.2019 की शाम करीब 07:00 बजे थाना गुरसराय अंतर्गत कस्वा गुरसराय में व्यवसायी श्री उदय सिंघई के घर अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहों से लैस होकर लूट की घटना कारित कर क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया था जिस सम्बन्ध में थाना गुरसराय में वादी श्री उदय सिंघई निवासी कस्वा गुरसराय की तहरीरी सूचना पर मु०अ०स० 125/19 धारा 394,452 भादवि बनाम अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमे झाँसी पुलिस द्वारा दिनांक 24.07.19 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चार शातिर लूटेरे गिरफ्तार किये गये थे जिनके कब्जे से लूट के जेबरात 48 ग्रा. 900 मि.ग्रा. सोने के, 10 कि०ग्रा. 860 ग्राम आभूषण चाँदी के कीमत करीब 07 लाख रुपये बरामद किये गये थे। जिस सम्बन्ध में कल दिनांक 03.08.19 को जनपद झाँसी के सम्मानित व्यापारी गणों द्वारा बुंदेलखंड प्राइड होटल में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर उपरोक्त सर्राफा व्यवसायी के घर लूट की घटित घटना का मात्र 02 हफ्तों के अन्दर सफल अनावरण करने पर झाँसी पुलिस को सम्मानित किया गया। बुंदेलखंड प्राइड होटल में एक सम्मान समारोह के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी डा0 श्री ओ0पी0 सिंह सहित उनके निर्देशन में लगी समस्त पुलिस टीम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल मिठास, क्षेत्राधिकारी नगर श्री जितेन्द्र सिंह परिहार, क्षेत्राधिकारी गरौठा श्री शैलेन्द्र सिंह सहित श्री विजय कुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट/सर्विलांस मय पुलिस टीम, श्री अवध नरायण पाण्डेय, थानाध्यक्ष थाना गुरसराय झाँसी मय पुलिस टीम, श्री अजयपाल सिंह, मय टीम प्रभारी निरीक्षक थाना गरौठा झाँसी, श्री प्रवीन कुमार थानाध्यक्ष थाना लहचूरा झाँसी मय टीम को स्मृति चिन्ह देकर व शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

दीपक अहिरवार पुत्र गोपाल अहिवार निवासी वूढा थाना सीपरी वाजार जिला झाँसी

बरामदगी का विवरण

02 कि.ग्रा चाँदी पुरानी इस्तेमाली बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री अवध नरायण पाण्डेय, थानाध्यक्ष थाना गुरसराय झाँसी
- 2- उ.नि.अखिलेश कुमार सिंह, थाना गुरसराय झाँसी
- 3-उ.नि.सुनील कुमार सिंह, थाना गुरसराय झाँसी
- 4-मु.आ.252 राकेश कुमार दीक्षित, थाना गुरसराय झाँसी
- 5- का0 1529 प्रदुम्न कुमार, थाना गुरसराय झाँसी
- 6-चालक-का.वलवीर पाल थाना गुरसराय झाँसी